

Bhakt Darshan, Govt PG College, Jairikhal

Self finance B. Ed. Department

Mrs. Rashmi Rana (Science Teaching)

Understanding Discipline and Subject

1. अनुशासनात्मक ज्ञान का विकास कौन से वर्ष के बाद हुआ ?
 (a) 1950 (b) 1957
 (c) 1966 (d) 1980
2. 'शिक्षा का उद्देश्य अनुशासन को सम्मान है', यह परिभाषा किसने द्वाका दी गई ?
 (a) जॉन डीवी (b) जेम्स एम. ली
 (c) ब्रुनर (d) एलवर्ड गिंड
3. अनुशासनात्मक ज्ञान की प्रकृति होती है :-
 (a) अनोखापन (b) परिवर्तनशील तथा जटिलता
 (c) (a) और (b) दोनों (d) इनमें से कोई नहीं।
4. 'The Process of Education' नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं ?
 (a) जेम्स एम. ली (b) ब्रुनर
 (c) Bestor (d) एलवर्ड गिंड
5. प्राथमिक अंकगणित के अध्यापक अंकगणित संबंधी अपने ज्ञान को संगठित करते हैं जैसे _____ ने knowledge packages / cluster of ideas (विचारों) का सूत्र बना नाम दिया।
 (a) Liping Ma (b) Bestor
 (c) Joseph Schwab (d) इनमें से कोई नहीं।
6. ब्रुनर के अनुसार किस पाठ्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थी प्रारंभिक स्तर से लेकर उच्चतम स्तर तक तीनों सामंजस्य स्तरों - सांकेतिक, दृश्य प्रतिमा तथा सांकेतिक पर एक ही पंक्ति के विचारों का अध्ययन करता है ?
 (a) काल-केन्द्रित पाठ्यक्रम (b) जन्म-केन्द्रित पाठ्यक्रम
 (c) लक्ष्य-केन्द्रित पाठ्यक्रम (d) इनमें से कोई नहीं।

7. "पाठ्यक्रम में सुनकरूपेण विभिन्न अनुशासनों से संबंधित ज्ञान संगठित होना चाहिए क्योंकि विभिन्न अनुशासन ज्ञान को विशिष्ट-सोपान-रूप में प्रस्तुत करते हैं," यह लक्ष्य किसके द्वारा रखा गया है ?

- (a) कर्कर (b) लोरीक कर्कर
(c) वेरर (d) फेनिक्स

8. अनुशासनात्मक ज्ञान क्या किस प्रकार के पाठ्यक्रम का निर्माण होता है ?

- (a) बाल-लेखित (b) अध्यात्म केंद्रित
(c) ज्ञान-लेखित (d) उनमें से कोई नहीं,

9. अनुशासनात्मक ज्ञान के अंतर्गत विद्यार्थियों से अपेक्षा के स्तरों का अंतर से स्तरों की उम्मीद की जाती है।

- (a) सिद्धांतों तथा अवधारणाओं का स्तरांतरण (b) अध्यात्म का विशेष स्तरांतरण सिद्धांतों तक
(c) a और b दोनों (d) इनमें से कोई नहीं।

10. अनुशासनात्मक ज्ञान किस किस प्रकार पर आधारित है ?

- (a) वास्तववादी (b) समतावादी
(c) अर्थात्वादी (d) इष्टांतरवादी

Q1 → निम्न में से ब्रह्म के दो पक्ष कौन-कौन से हैं ?

- (A) प्रायश्चिन्त ब्रह्म
- (B) परीक्ष ब्रह्म
- (C) (A) व (B) दोनों
- (D) निम्न में से कोई भी

Ans → (C) A व B दोनों

Q2 → "केवल वही ब्रह्म वास्तविक है जो हमारी प्रकृति में संगठित हो गया है जिससे हम पर्यावरण को अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने में सक्षम हो सके"। यह कथन किसका है ?

- (A) डॉ. जॉन डीवी
- (B) श्री रसल
- (C) विलियम जेम्स
- (D) सुकरोत

Ans → (A) डॉ. जॉन डीवी

Q3 → "ब्रह्म वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है"। यह कथन किसका है ?

- (A) जे. डी. जे.
- (B) विलियम जेम्स
- (C) श्री रसल
- (D) श्री जोड

Ans → (C) श्री रसल

Q4 → "ब्रह्म सर्वोच्च सद्गुण है" यह कथन किसने दिया था ?

- (A) श्री रसल
- (B) जे. डी. जे.
- (C) सुकरोत
- (D) श्री जोड

Q5 → "ज्ञान वह है जो मनुष्य को सांसारिक दुखों से मुक्त करा दिलाये" यह कथन किसे है ?
 A) वेद वेदों B) वेद वेदों
 C) यथार्थवादी दर्शन D) यथार्थवादी दर्शन

Q6 → निम्नलिखित में से ज्ञान के स्रोत माने जाते हैं ?
 A) इंद्रिय अनुभव (Sensory experience)
 B) साक्ष्य (Testimony)
 C) तर्कबुद्धि (Reason)
 D) उपर्युक्त सभी

Ans → (D) उपर्युक्त सभी

Q7 → निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ?
 A) ज्ञान सुनिश्चित है
 B) सूचना ज्ञान का स्रोत है
 C) ज्ञान कभी भी समाप्त नहीं होता।
 D) उपर्युक्त सभी।

Ans → (D) उपर्युक्त सभी।

Q8 → ज्ञान के प्रकार हैं ?
 A) सामान्य ज्ञान C) (A) तथा (B) दोनों
 B) विविध ज्ञान D) इनमें से कोई नहीं।

Ans → (C) (A) तथा (B) दोनों।

Scanned with CamScanner

Date: / /

Q9 → ज्ञान के विशेष प्रकार हैं -
 A) वैज्ञानिक ज्ञान C) तार्किक ज्ञान
 B) कलात्मक ज्ञान D) ये सभी।

Ans → (D) ये सभी।

Q10 → निम्न में से कौन सा कथन असत्य है ?
 A) ज्ञान का आधार संवेगात्मक अनुभव है।
 B) ज्ञान में मन सक्रिय होता है।
 C) ज्ञान शिक्षा की प्रक्रिया हेतु साधन का कार्य करता है।
 D) ज्ञान विश्व के रहस्यों को नहीं खोज पाता है।

Ans → (D) ज्ञान विश्व के रहस्यों को नहीं खोज पाता है।

- प्र०१ ज्ञान के स्त्रोत मीठन में से सौन-सा है,
 (a) तर्क बुद्धि (b) साक्षात् (c) इन्द्रिय अनुभव (d) उपर्युक्त सभी ✓
- प्र०२ ज्ञान के प्रकार है :-
 (a) प्रयोगात्मक ज्ञान (b) संबन्धी ज्ञान
 (c) अविमर्शज्ज्ञान ज्ञान (d) वे सारी ✓
- प्र०३ ज्ञान खोजने खडगुण यह कथन किसका है ?
 (a) बुकराय (b) अरस्तु (c) प्लेटो (d) जॉन डीवी ✓
- प्र०४ निम्नलिखित में ज्ञान प्राप्ति के स्त्रोत है -
 (a) ग्राह्यिक प्रशिक्षण (b) मोशनल प्रशिक्षण
 (c) साधुदाशिक प्रशिक्षण (d) वारिन्स प्रशिक्षण ✓
- प्र०५ अनुभववादी सिद्धान्त के अनुसार ---- ज्ञान
 से जननी है,
 (a) अनुभव (b) गरि
 (c) ज्ञान (d) खडगुण
- प्र०६ ज्ञान में सिद्धान्त है -
 (a) अनुभववादी सिद्धान्त (b) बुद्धिवाद में सिद्धान्त
 (c) योग में सिद्धान्त (d) वे सारी ✓

- प्र०७ बुद्धिवाद में सिद्धान्त है,
 (a) बुकराय, प्लेटो (b) मिनिगत्र नेग्रस
 (c) जॉन डीवी (d) जॉन डीवी ✓
- प्र०८ "ज्ञान खोजने है" यह कथन किसका है ?
 (a) मिनिगत्र नेग्रस (b) रॉन्सु
 (c) प्रोफेसर रसेन (d) बुकराय ✓
- प्र०९ ज्ञान के मुख्यतः किन्ने प्रकार है,
 (a) 2 (b) 3
 (c) 4 (d) 5 ✓
- प्र०१० अनुभव वादी सिद्धान्त के अनुसार ज्ञान है,
 (a) प्रो. नेग्रस (b) जॉन डीवी
 (c) जॉन डीवी (d) मिनिगत्र नेग्रस ✓

Q.1. पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत है?

- (a) प्रयोगशाला का सिद्धांत,
- (b) सीवधान का सिद्धांत
- (c) उपस्थापना का सिद्धांत
- (d) उपरावत संगी,

Ans: (d) उपरावत संगी,

Q.2. Curriculum शब्द का अर्थ है?

- (a) दंड का संगण,
- (b) पाठ्यक्रम,
- (c) अध्यापन,
- (d) शिक्षण

Ans: (a) दंड का संगण,

Q.3. ज्ञान का सिद्धांत है?

- (a) अनुभववाद सिद्धांत (b) बुद्धिवाद का सिद्धांत
- (c) शक्ति का सिद्धांत (d) उपरावत संगी,

Ans: (d) उपरावत संगी,

Q.4: जीन संबंध संश्लेषण के एक कदम किस

(a) प्रो रस (b) प्रो जड

(c) लंब (d) सुक्रांत

Ans: (d) सुक्रांत

Q.5: अनुभव वादी सिद्धांत के अनुसार

(a) अनुभव (b) चरित

(c) मन (d) संश्लेषण

Ans: (a) अनुभव

Q.6: विमन में से जीन के पक्ष

(a) प्रत्यक्ष जीन (b) प्रति जीन

(c) A व B दोनों (d) जो से कड़वा

Ans: (c) A व B दोनों

Q.7: विमन में से कौन पाठ्यक्रम का आयोज

(a) अध्यक्ष (b) विद्यार्थी

(c) अवकाश (d) अनुसंधान

Ans: (c) अवकाश

Q.8. निम्न में से पाठ्यक्रम के मूल तत्व नहीं है

(a) उद्देश्य (b) सरकार

(c) मूल्यांकन (d) पाठ्यवस्तु

Ans: (b) सरकार

Q.9. निम्न में से पाठ्यक्रम संशोधन का प्रारंभिक चरण है

(a) मूल्यांकन (b) प्रारंभिक चरण

(c) a व b दोनों (d) कोई नहीं

Ans: (c) a व b दोनों

Q.10. अज्ञानवाद सिद्धांत के जनक हैं?

(a) जॉन डी वी (b) जॉन लॉक

(c) विलियम जेम्स (d) प्रो. जोड

Ans: (b) जॉन लॉक

Q1+	ज्ञान के प्रकार हैं 2
(a)	सामान्य ज्ञान
(b)	विशेष ज्ञान
(c)	A और B दोनों
(d)	इनमें से कोई नहीं
Ans (c)	A और B दोनों
Q2+	ज्ञान के विशेष प्रकार हैं
(a)	वैज्ञानिक ज्ञान
(b)	तार्किक ज्ञान
(c)	कलात्मक ज्ञान
(d)	ये सभी
Ans (d)	ये सभी
Q3+	उपनिषद् एवं ज्ञान के प्रकार हैं
(a)	परा विद्या
(b)	अपरा विद्या
(c)	A और B दोनों
(d)	इनमें से कोई नहीं
Ans (c)	A और B दोनों
Q4+	जैन दर्शन और ज्ञान के प्रकार हैं -
(a)	मती ज्ञान
(b)	भूति ज्ञान
(c)	आवृत्ति ज्ञान
(d)	ये सभी
Ans (d)	ये सभी

Scanned with CamScanner

Page No: _____	
Q5+	ज्ञान का सिद्धान्त है
(a)	अनुभववादी सिद्धान्त
(b)	बुद्धिवाद का सिद्धान्त
(c)	गौण का सिद्धान्त
(d)	ये सभी
Ans (d)	ये सभी
Q6+	विद्यालय में ज्ञान प्राप्ति के स्त्रोत हैं -
(a)	मालासेक प्राप्ति हाथ
(b)	कौशलनात्मक प्राप्ति
(c)	सांसाध्यिक जीवन प्राप्ति
(d)	नैतिक प्राप्ति
Ans (d)	नैतिक प्राप्ति
Q7+	निम्न में से ज्ञान के पथ हैं
(a)	पलायन ज्ञान
(b)	परिष्कार ज्ञान
(c)	A और B दोनों
(d)	इनमें से कोई नहीं
Ans (c)	A और B दोनों
Q8+	ज्ञान सर्वोच्च सदगुण है, यह कथन किसका है
(a)	प्लेटो
(b)	सुकरात
(c)	प्लेटो
(d)	प्लेटो
Ans (d)	सुकरात
Q9+	निम्न में से कौन सा कथन सत्य है
(a)	ज्ञान सुनिश्चित है
(b)	सूचना ज्ञान का स्त्रोत है
(c)	ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता
(d)	उपर्युक्त सभी
Ans (d)	उपर्युक्त सभी
Q10+	निम्न में से ज्ञान के स्त्रोत माने जाते हैं
(a)	इन्द्रिय अनुभव
(b)	साध्य
(c)	तर्कबुद्धि
(d)	उपर्युक्त सभी
Ans (d)	उपर्युक्त सभी

प्रश्न 6: निम्न में ज्ञान के स्रोत माने जाते हैं।

- (a) इन्द्रिय अनुभव (b) तर्कबुद्धि
(c) साध्य (d) उपर्युक्त सभी

उत्तर: (d) उपर्युक्त सभी।

प्रश्न 7: ज्ञान के रूप हैं।

- (a) सूचना (b) जानना
(c) बुद्धिमत्ता (d) उपर्युक्त सभी।

उत्तर: (d) उपर्युक्त सभी।

प्रश्न 8: बुद्धिवाद का सिद्धांत है।

- (a) विलियम जेम्स (b) जॉन लॉक
(c) सुक्यात, प्लेटो (d) जॉन डीवी

उत्तर: (c) सुक्यात, प्लेटो।

प्रश्न 9: अनुभव वादी सिद्धांत के जनक हैं।

- (a) जॉन डीवी (b) विलियम जेम्स
(c) प्रो. जोड (d) जॉन लॉक

उत्तर: (d) जॉन लॉक।

प्रश्न 10: "ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है" यह कथन किसका है।

- (a) प्रो. रसेल (b) विलियम जेम्स
(c) जॉन लॉक (d) प्रो. जोड

उत्तर: (a) प्रो. रसेल।

उत्तरमाला - 1-c, 2-b, 3-d, 4-b, 5-a, 6-d
7-d, 8-c, 9-d, 10-a

प्रश्न 1:

ज्ञान के मुख्यतः कितने प्रकार हैं ।

- (a) 3 (b) 4
(c) 5 (d) 2

उत्तर:

- (c) 5

प्रश्न 2:

"ज्ञान शक्ति है" यह कथन किसका है ?

- (a) सुकरात (b) हॉब्स
(c) प्रोफेसर रसेल (d) विलियम जेम्स ।

उत्तर:

- (b) हॉब्स ।

प्रश्न 3:

निम्न में से कौन सा कथन सही है ?

- (a) ज्ञान सुनिश्चित है (b) सूचना ज्ञान का स्रोत है
(c) ज्ञान कभी भी समाप्त नहीं होता (d) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

- (d) उपर्युक्त सभी ।

प्रश्न 4:

"आत्मा व परमात्मा के रूप में विचारों की अनुभूति ही वास्तविक ज्ञान है" यह कथन किसका है -

उत्तर:

- (a) सुकरात (b) प्लेटो
(c) डीवी (d) हॉब्स ।

उत्तर:

- (b) प्लेटो ।

प्रश्न 5:

"ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है" - यह कथन किसका है -

- (a) सुकरात (b) प्लेटो
(c) प्रो. जोड (d) हॉब्स

उत्तर:

- (a) सुकरात ।

1) पाठ्यक्रम को तैयार करने में सबसे अधिक ध्यान रखना पड़ता है।

- (1) छात्रों का
- (2) शिक्षा के उपदेशों का
- (3) पाठों की विषय वस्तु एवं सामग्री का
- (4) शैक्षिक विधियों तथा नए नए तकनीकी सहायता उपकरणों का

Ans (2)

2) शिक्षा की दिशा कौन निर्धारित करता है,

- 1) छात्र
- 2) शिक्षक
- 3) पाठ्यक्रम
- 4) अभिभावक

Ans (3)

(3) पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत है।

- (1) क्रियाशीलता का सिद्धांत
- (2) विविधता का सिद्धांत
- (3) उपयोगिता का सिद्धांत
- (4) उक्त सभी

Ans (4)

(4) पाठ्यक्रम की संकेन्द्रिय 6 पद्धति आधारित है;

- (1) सरल से कठिन की ओर
- (2) कठिन से सरल की ओर
- (3) पूर्ण से अपूर्ण की ओर
- (4) अपूर्ण से पूर्ण की ओर

Ans (1)

5) कौनसे शब्द का अर्थ है,

- (1) रविलाडी
- (2) दौड़ का मैदान
- (3) पाठशाला
- (4) शिक्षण

ANS (2)

(c) पाठ्यक्रम के विषयों को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहिए कि जिससे एक विषय के शिक्षण से दूसरे के ज्ञान में सहायता मिल सके। यह कथन है

- (1) जेराल्डिन
- (2) हर्बर्ट
- (3) विलियम
- (4) मान्नेसरी

ANS (2)

7) सह-संबंध किसे कहते हैं -

- (1) विभिन्न विषयों के परस्परिक संबंध को
- (2) विभिन्न विषयों के पृथक्-पृथक् अध्ययन को
- (3) किसी विषय के अध्ययन को
- (4) उपर्युक्त कोई नहीं

ANS (1)

8) अग्रिम पंक्ति पाठ्यक्रम में शिक्षक किसे प्रोत्साहित करते हैं;

- (1) शैक्षिक नेता
- (2) तटस्थ व्यक्ति
- (3) सह-अध्यक्ष
- (4) कोई नहीं

9) शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्चा शब्दावली —
की ओर संकेत करती हैं।

- (1) मूल्यांकन प्रक्रिया
- (2) कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री
- (3) शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु
- (4) विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं।

Ans

(4)

10) स्कूल (level) का पाठ्यक्रम किसके द्वारा (developed) किया जाता है।

- (1) Provincial Govt.
- (2) federal Govt.
- (3) University of education.
- (4) Textbook board.

Ans

(4)

40 - प्रयुनभव ज्ञान के प्रकारिक कौन हैं -

(क) प्रो० जोड

(ख) गिर्लियम जेम्स

(ग) कैंड

(घ) प्रो० इन्वेन्

उ० - (ग)

41 - किस ज्ञान की लैंगिक ज्ञान कहते हैं -

(क) अफरा ज्ञान

(ख) प्रयुनभाविक ज्ञान

(ग) कैंडल्य ज्ञान

(घ) फरा ज्ञान

उ० - (घ)

42 - इसरी के प्राप्त अनुभव व निरीक्षण को आधार समते हुए ज्ञान प्राप्त करने कहलाता है -

(क) लैबोरेटरी

(ख) इंत' पुजा

(ग) साधन

(घ) इन्ड्रिय अनुभव

उ० - (ग)

43 - 'ज्ञान हमारी अपेक्षा, जानकारी व अनुभवों के प्रच्छार में खड़े का नम है' यह कथन किसने दिया -

(क) गिर्लियम जेम्स

(ख) फ्रेडरिक्ट डी

(ग) प्रो० जोड

(घ) प्रो० इन्वेन्

उ० - (ग)

५०. किस ज्ञान के अन्तर्गत कक्षाएँ, लोकप्रचलित कथाएँ तथा परम्परायें आती हैं -

(क) प्रागुन शैक्षिक

(ख) प्राथमिक

(ग) प्रत्यक्ष

(घ) अनुमेय

उ - (क)

५१ - उपनिषद में ज्ञान हेतु कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है -

(क) विद्या

(ख) वाङ्मय

(ग) अन्तःकृति

(घ) अन्तःकृतज्ञान

उ - (क)

५२ - 'ज्ञान व्यवहारिक प्राप्ति व सफलता का दूसरा नाम है।' कहा -

(क) बुद्धिमत

(ख) विलियम जेम्स

(ग) प्रो० जोउ

(घ) प्रो० ब्रसेल

उ - (ख)

५३ - अनुभवजन्य ज्ञान के पूर्वक कौन थे -

(क) गाल

(ख) प्रो० रसेल

(ग) जॉन लॉक

(घ) प्रो० विलियम जेम्स

उ - (ग)

५४ - विषय में ज्ञान प्राप्ति का स्रोत है -

(क) भागमिक प्रशिक्षण

(ख) कौशलवात्मक प्रशिक्षण

(ग) सामुदायिक जीवन प्रशिक्षण

(घ) सार्वजनिक प्रशिक्षण

उ - (घ)

५५ - ज्ञान के स्रोत हैं -

(क) अनुभवजन्य

(ख) बुद्धिवादी

(ग) प्राग

(घ) अज्ञान

उ - (ग)

8. विद्यालय में ज्ञान प्राप्ति के विज्ञान हैं :

- (a) मानसिक प्रशिक्षण (b) कौशलमूलक ज्ञान
(c) सामुदायिक ज्ञान प्रशिक्षण (d) आर्थिक प्रशिक्षण

Ans: (d)

9. वाह्य अनुशासन के प्रकार हैं :

- (a) शारीरिक दण्ड व विन्यास करना (b) कक्षा से बाहर कर देना
(c) आर्थिक दण्ड दिया जाना (d) से घभी

Ans: (d)

10. शिक्षा से सह सम्बन्ध शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कितने विद्वान् ने किया था :

- (a) हर्बर्ट ने (b) स्पेंसर ने
(c) स्मिथ ने (d) कौमथ ने

Ans: (a)

11. सह सम्बन्ध कितने प्रकार का होता है :

- (a) 2 (b) 8
(c) 4 (d) इनमें से कोई नहीं

Ans: (b)

12. सामाजिक प्रत्यक्ष मानवीय सम्बन्धों के साथ विश्व वातावरण की व्याख्या करता है -

- (a) मानसिक (b) सामाजिक
(c) भौतिक (d) मनोवैज्ञानिक

Ans: (c)

Q.1 नाम के प्रकार है।

- (A) सामान्य नाम (B) विशिष्ट नाम (C) तत्वा (D) दोनों
Ans: - (C) तत्वा (D) दोनों।

Q.2 नाम के विशेष प्रकार है।

- (A) वैज्ञानिक नाम (B) तार्किक नाम (C) कलात्मक नाम (D) प्रेक्षणी
Ans: - ये सभी।

Q.3 नाम के प्रकार है।

- (A) पद्य विद्या (B) उपन्यास विद्या (C) सत्वा तत्त्वों (D) कोई नहीं।
Ans: - (A) प्रयोग।

Q.4 नाम के प्रकार है।

- (A) अती नाम (B) इति नाम (C) सबधि नाम (D) प्रेक्षणी।
Ans: - ये सभी।

Q.5 नाम का अर्थ है।

- (A) अनुवृत्तवादी सिद्धांत (B) बुद्धिवाद का सि० (C) प्रयोगवादी सि०
(D) ये सभी।

Ans: - ये सभी।

Q.6 नाम के उदाहरण है।

- (A) आचार्यिक शास्त्रिका (B) वैदिकशास्त्र, शास्त्रिका (C) सांख्यिक
दर्शन शास्त्रिका
(D) चारित्रिक शास्त्रिका

Ans: - चारित्रिक शास्त्रिका।

Q.7 अनुवृत्तवादी सिद्धांत (Dialectic) सिद्धांत से उत्पन्न हुआ है।

Q.8 केवल वही नाम प्रत्यय है जो हमारे प्रकृति में संयोजित हो जाता है जिससे हम प्रकृति को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार बनाने में सक्षम हो सके। प्रश्न का है।

- (A) चीन सिद्धांत (B) प्रो० रसेल (C) तिलिग्न जोस (D) सुकरात
Ans: - चीन सिद्धांत।

Q.9 नाम वह है जो मनुष्य के मन को प्रभावित करता है। फल है।

- (A) लोको - (B) सुकरात (C) प्रो० रसेल (D) प्रो० जोस।

Ans: - प्रो० रसेल।

Q.10 नाम सर्वोच्च सदगुण है प्रश्न का है।

- (A) प्रो० रसेल (B) सुकरात (C) लोको (D) चीन सिद्धांत।

Ans: - (B) सुकरात।